



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16—मार्च 22, 2013 (फाल्गुन 25, 1934)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16—MARCH 22, 2013 (PHALGUNA 25, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2013

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)

सं. 101, दिनांक 19 फरवरी, 2013-- राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

राज कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डीआरडीओ में 22 अक्टूबर 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर

राजीव रंजन खाँ
उपनिदेशक (कार्मिक एए-2)

वायु सेना

सं. 102, दिनांक 19 फरवरी, 2013--माननीय राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थायी पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के स्थायी रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

एम आई के रेड्डी (18157), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
वी सुब्बा राव (18160), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
डी शर्मा (18143), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
आर के गुप्ता (18137), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एम शाह (18153), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एम श्रीवास्तव (18142), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
एस चौधुरी (18135), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
के एस रॉय (18154), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
जे जोसफ (18141), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी
ए सक्सेना (18147), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

के विश्वास (18178), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

पी एस मुलतानी (18177), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

ए बी पटेल (18179), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

लेखा शाखा

टी एन श्रीनिवास (18172), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

ए एन बाबू (18169), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

ई जैकब (18171), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

एम वी आर मूर्ति (18170), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए के राय (17786), के आर रामाकृष्णा राजा (17788), ए पांडे (17789)--21 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

एम बापीराजू (17888), के रंजीत (17890), पी जे नायर (17884), आर एस तिवारी (17883), ए सेनापति (17900), पी के बोराह (17899), आईएम आसिफ (17893), वी मोहनदास (17897), पी सिंह (17892), ए वी चन्द्रशेखरन (17898)--14 जून 2011 से प्रभावी

लेखा शाखा

एस एस अकुरती (17913), यू के शर्मा (17901), ए के निगम (17915), वी के शर्मा (17921), एन आर प्रसाद (17919), के कल्याण कुमार (17907), एम बुरा (17922), टी एस खुराना (17904), आर के दास (17911)--14 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

एम के होता (17586), आर समीदुराई (17589), आई ऑगस्टाईन (17590), ए के श्रीवास्तव (17585)--14 जून 2011 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

एस एल एस प्रसाद (18667), 19 अगस्त 2011 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

टी के सिन्हा (17857), बी जी कर्वे (17877), वी कपूर (17840), समीर (17865), एन के राय (17868), एस देवधर (17871), ओ जे एस दास (17860)--14 जून 2011 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

पी के जोशी (17852), 14 जून 2011 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

वी वी एस आर कृष्णा (18460), पी सी पांडे (18528), ए के तिवारी (18490), बी वी एस रेड्डी (18450), ए चोपड़ा (18494),

एम ए खान (18445), बी सिंह (18441), बी एन एम भीमैया (18448), ए सरमण्डल (18459), ओ पी सिंह (18514), ए गोल्ला (18538), एन चन्द्रशेखर (18500), वी हरिदास (18542), एम चक्रपाणि (18436), बी ए एस आचार्य (18512), एम जी शंकर गौदर (18439), एम वेणुधर रेड्डी (18443), आर कुमार (18443), आर टी आइजैक (18540), एस मंडल (18435), एम ए खान (18445)--17 अगस्त 2011 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

एन थिनाकरन (18507), जे वेंकटसुब्रामण्यम (18480), पी एस राठौड़ (18506), ओ पी शर्मा (18544), आर फयाज अहमद (18474), एम के शर्मा (18469), वी चन्द्रा (18981), वी एस नैय्यर (18470), डी जी कृष्णा (18465), आर कौल (18472), आर चनसोरिया (18476), एफ रहमान (18496), आर आर जे सुदर्शन (18471), डी कामेश (18473), एम जैड रहमान (18509), सी एस पी गुप्ता (18508), बी एस नैय्यर (18470)--17 अगस्त 2011 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

वी सुनील कुमार (18102), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

बी रॉय (18131), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

एस के मेहता (18117), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

एस के निहलानी (18103), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

ए डी सिंह (18130), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

पी एम श्रीनिवासन (18104), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

एस मोहपात्रा (18127), 06 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

जे एस राणा (18132), 06 जून 2012 से प्रभावी

राजीव राज गेरा (18110), 27 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कर्मांडर के स्थायी रैंक पर

एफ (पी) शाखा

नितिन जैन (24932), अजीत कुमार तिवारी (24955), गौरव वर्मा (24928), विनोद नेगी (24938), जे उमराव (24945), एस सिंह (24954), तिवारी एस (24943), जी सावंत (24940), ए श्रीवास्तव (24952), बी के सिंह (24951), जे सिंह (24933), पी संजय (24930), आर के आई चाचादी (24914), आर एन पवार (24903), के मिश्रा (24902), वी सिंह (24920), वाई एस ठाकरान (24910), आर आर तम्हाने (24897), ए वी कुलकर्णी (24896), एन के बाला (24895), एस सिंह (24894), ए मित्रा (24890), एन सिंह (24887), डी सी तिवारी (24921), अतुल ए मुदबिर्दी (24946), कनविंदे ए अनिल (24944), सुनील कुमार यादव (24941), ए के बुधवार (24936), दुष्यंत दहिया (24937), दसारी अजय गोपाल (24935), पीयूष धवन (24886), एम किरण कुमार रेड्डी (24931), सुरेश बाबू पकाला (24927), तरूण कुमार सिंह (24924), सेबेस्टियन अनिल

कुरियन (24922), एस अनिल (24919), ए जावरवाल (24912), एन मनीष (24906), टी शर्मा (24904), हरविन्दर सिंह संधू (24907), बिमलखेडकर क्रेदार (24901), अशोक कुमार (24900), अश्विनी जैन (24898), सर्वानन सेंगमलाई (24891), आई जे एस हुंडाल (24888), डी शर्मा (24949), एस पांडे (24948), एस मित्रा (24923), गिरीश कुकरेजा (24916), मोहित सक्सेना (24915), के एन सिंह (24953), रितेश चन्द्र तिवारी (24960), मंगेश अशोक जेड (24958), विशाल अनिल काले (24950), अभिजीत ए चेंडके (24913), प्रालोक कुमार ठाकुर (24911), विकास तोमर (24909), प्रतीक गोडियाल (24957), अमित मेहता (24956)--20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

वर्मा एन (24908), रिपुदमन सिंह (24926)--20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

आर एस सोढ़ी (25043), 27 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

मनीष शर्मा (25040), 27 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

पवन कुमार धोरेलिया (25041), 27 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

एम तलवार (24947), 23 जुलाई 2011 से प्रभावी (20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

आर देशमुख (24905), 28 दिसम्बर 2010 से प्रभावी (20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

ए जे कोल्हाटकर (24892), 28 दिसम्बर 2010 से प्रभावी (20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

वी एस सैनी (25060), 20 दिसम्बर 2011 से प्रभावी (20 जून 2011 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

योगेश ग्रेवाल (25068), 03 सितम्बर 2011 से प्रभावी (20 जून 2011 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

एफ (एन) शाखा

सुमित कपूर (25145), पी के मिश्रा (25151), जे एफ लश्करी (25150), आशुतोष तिवारी (25149), अमित खन्ना (25143), गौतम सूद (25147), वी के त्रिपाठी (25142), एम के श्रीवास्तव (25146), पी के मिश्रा (25148)--20 जून 2011 से प्रभावी

आलोक श्रीवास्तव (25140), 20 दिसम्बर 2011 से प्रभावी (20 जून 2011 से प्रभावी नोशनल वरिष्ठता के साथ)

वरूण गुप्ता (24965), अरूण कुमार बहुगुणा (24961), दीपक कुमार साहनी (24964), जीतेन्द्र कुमार (24962), राजेश मनोहरन नायर (24963), किंशुक कुमार (24967), रत्नाकर सिंह (24969), मनीष शुक्ला (24970), कुलदीप सिंह चौहान (24971), विनय अग्निहोत्री (24968)--20 दिसम्बर 2010 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

महन कलिया (25109), सी जयदीप (25097), नितिन बत्तरा (25140), एम चौधरी (25119), जे पी सिंह (25139), ए श्रीधर (25117), एन के दूबे (25116), अरविन्द आर महादिक (25104), दीपक कुमार (25103), राहुल अरोड़ा (25102), इन्द्रनील नंदी (25099), संजय कुमार चंदन (25094), अमरेन्द्र सामल (25093), दीपक पंत (25092), करण हाजेलाल (25086), वाई कुमार (25085), नितिन मिश्रा (25084), वी टी प्रकाश (25083), जे डी मसूरकर (25082), रोहित कपिल (25081), के रामजी यादव (25091), अमित रैना (25089), वी के शर्मा (25098), यू शिवम (25090), पी एल गर्ग (25100), सी यू वी राव (25087), नलिन साहनी (25088), पी यादव (25132), संतोष तिवारी (25080), पी पी मिश्रा (25079), बृजेश पॉल (25078), ऋषभ मित्तल (25077), प्रशान्त रावत (25076), विक्रम मेहरा (25075), सिद्धार्थ हंडा (25074), विपुल भाटिया (25073), मनीष कुमार पाण्डे (25135), रजत महाजन (25072), ए पी देशपाण्डे (25071), सुमित पॉल (25138), पी पी हुड्डर (25137), ए दवे (25134), आर शर्मा (25131), पी सी पंत (25130), ए एस राजपूत (25129), पी जौहरी (25128), आर गौतम (25127), बी एस रंधावा (25126), एस एस बिरदी (25125), वी कश्यप (25124), ए एस ठाकुर (25121), डी मैत्रा (25122), संतोष कुमार यादव (25106), एम वी मुदलियार (25105), ए अनीश (25136), बी पाठक (25123), सिद्धार्थ रावत (25115), संदीप कुमार किन्हा (25063), जी एस सूदन (25070), एस एस ग्रेवाल (25061), प्रशांत अग्निहोत्री (25059), आर एस चमबयाल (25112), ए ए फंसलकर (25114), एस के मिश्रा (25113), वी पी सिंह (25111), अमित जैन (25110), मनीष मेंदारगी (25108), डेरियल केस्टिलिनो (25107), शलभ शर्मा (25069), देबंजन मंडल (25066), एस वी सहारन (25065)--20 जून 2011 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

प्रद्युम्न गोखले (25101), आर डी फियाल्हो (25133), यशदीप डबास (25064)--20 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

ए वी मजूमदार (25096)--20 जून 2011 से प्रभावी

फ्ला लेफ्ट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

बी एस राणा (28524), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस सुनील कुमार (28543), 18 जून 2011 से प्रभावी

जे एस राणा (28533), 18 जून 2011 से प्रभावी

दीपांकर (28537), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए एस रावत (28540), 18 जून 2011 से प्रभावी

जी पति (28546), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी कृष्णा कुमार (28541), 18 जून 2011 से प्रभावी

जी किशोर (28525), 18 जून 2011 से प्रभावी

पी अब्राहम (28523), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए विर्क (28545), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए दरबारी (28547), 18 जून 2011 से प्रभावी
 पी फणी भूषण डोरा (28534), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस गोपी (28518), 18 जून 2011 से प्रभावी
 पी अग्रवाल (28530), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस के उपाध्याय (28531), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एम के कपिल (28535), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए शर्मा (28536), 18 जून 2011 से प्रभावी
 सी हरि (28510), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस एस श्रीवास्तव (28511), 18 जून 2011 से प्रभावी
 के जे सिजो (28532), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए के वर्मा (28526), 18 जून 2011 से प्रभावी
 सी स्टैनले जॉन (28522), 18 जून 2011 से प्रभावी
 बी सिंह (28527), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए कलान (28539), 18 जून 2011 से प्रभावी
 बी एस अत्री (28538), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस एच हक (28542), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए एस यादव (28528), 18 जून 2011 से प्रभावी
 वी प्रकाश (28521), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस डे (28517), 18 जून 2011 से प्रभावी
 वी सैनी (28516), 18 जून 2011 से प्रभावी
 वी सुंदर (28515), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस सुभाष (28529), 18 जून 2011 से प्रभावी
 जे के सिंह (28520), 18 जून 2011 से प्रभावी
 डी गांवकर (28519), 18 जून 2011 से प्रभावी
 जी विजय कुमार (28514), 18 जून 2011 से प्रभावी
 पी रघुनाथ (28513), 18 जून 2011 से प्रभावी
 जी कार्तिकेयन (28512), 18 जून 2011 से प्रभावी

लेखा शाखा

पंकज ऋषि (28548), 18 जून 2011 से प्रभावी
 बी वी कुमार (28552), 18 जून 2011 से प्रभावी
 ए भट्टसली (28551), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी रोनाल्ड लेविस (28557), 18 जून 2011 से प्रभावी
 आर बी पाटिल (28554), 18 जून 2011 से प्रभावी
 सी श्याम कुमार (28555), 18 जून 2011 से प्रभावी
 आर शंकर (28549), 18 जून 2011 से प्रभावी
 देविन्दर सिंह (28550), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस उन्नी (28553), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस धनुषकोडी राजा (28556), 18 जून 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

पी जे मोंटिरो (28563), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एन एस सुंदर (28562), 18 जून 2011 से प्रभावी
 बी एस राठौड (28559), 18 जून 2011 से प्रभावी
 आई मनोज मेनन (28561), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस हमीद (28558), 18 जून 2011 से प्रभावी
 आर मलिक (28560), 18 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

जे के मेहता (28157), 18 जून 2011 से प्रभावी
 बी नेपाल (28156), 18 जून 2011 से प्रभावी
 एस एस दत्ता (28594), 13 अगस्त 2011 से प्रभावी, (03 जुलाई 2011 से नोशनल वरिष्ठता के साथ)

प्रशासनिक शाखा

एस भट्टाचार्य (28578), आर शर्मा (28577), पी ओझा (28573),
 एस राव (28572), एम के नैयर (28569), पी अरूण (28575), के
 नेगी (28576), बी विश्वास (28574), एन शर्मा (28580), जी बिष्ट
 (28579), वी यादव (28570), एस चक्रवर्ती (28571), 18 जून 2011
 से प्रभावी

लेखा शाखा

ए भट्टाचार्य (28582), आई गौतम (28587), एन श्रीवास्तव
 (28584), एस पी जैन (28585), आर कौर (28581), मुकेश पन्नू
 (28586), बी यादव (28588), पी आर जोशी (28583), 18 जून
 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

डी रावत (28590), ए चौधरी (28591), आर पृथ्वी राज (28592),
 वी दीक्षित (28593), 18 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

मुकेश कुमारी (28160), नीतू सिंह (28159)--18 जून 2011 से
 प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

श्रुति शर्मा (28158)--09 सितम्बर 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ए यादव (28589)--30 सितम्बर 2011 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

के डोगरा (28480), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी जी वरधान (28479), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए त्रिपाठी (28487), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए बी एस संगमा (28470), 18 जून 2011 से प्रभावी

के रमेश (28469), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए वी पावले (28478), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम बासु (28502), 18 जून 2011 से प्रभावी

टी जी जैकब (28495), 18 जून 2011 से प्रभावी

आर के डुडी (28468), 18 जून 2011 से प्रभावी

पी के पाण्डे (28466), 18 जून 2011 से प्रभावी

टी एस सिंह (28477), 18 जून 2011 से प्रभावी

वरूण भोज (28507), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम करपाल (28494), 18 जून 2011 से प्रभावी

एन यादव (28493), 18 जून 2011 से प्रभावी

राहुल चौहान (28492), 18 जून 2011 से प्रभावी

जी एम चार्ल्स (28471), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी विक्रम (28457), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए के गोयल (28455), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए पी सिंह (28454), 18 जून 2011 से प्रभावी

यू मेहता (28453), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए रैना (28452), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी के पटेल (28451), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए यादव (28450), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए पाल (28476), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए चेची (28475), 18 जून 2011 से प्रभावी

पी श्रीवास्तव (28486), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए माथुर (28474), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस येदावल्ली (28500), 18 जून 2011 से प्रभावी

आर के मिश्रा (28499), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए एस सुहाग (28498), 18 जून 2011 से प्रभावी

सी तेलंग (28485), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी तंवर (28473), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस के चौहान (28472), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी वी बांका (28484), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम आर कमल (28482), 18 जून 2011 से प्रभावी

आर एस ठाकुर (28481), 18 जून 2011 से प्रभावी

अमरदीप (28443), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए सेठी (28496), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए नागपाल (28505), 18 जून 2011 से प्रभावी

सी भूयन (28504), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस के शर्मा (28503), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस यू साठे (28489), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए कुमार (28483), 18 जून 2011 से प्रभावी

पी भाटी (28506), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम यादव (28442), 18 जून 2011 से प्रभावी

एन पुरोहित (28441), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस कुमार (28449), 18 जून 2011 से प्रभावी

पी सिंह (28448), 18 जून 2011 से प्रभावी

डी पी एस बाली (28446), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस गुप्ता (28445), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस यादव (28463), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम अरोड़ा (28462), 18 जून 2011 से प्रभावी

जी चोलाइल्ल (28461), 18 जून 2011 से प्रभावी

एम प्रवीन कुमार (28465), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए कादियान (28464), 18 जून 2011 से प्रभावी

एन यादव (28493), 18 जून 2011 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

वी के नेहरा (28467), 18 जून 2011 से प्रभावी

आई (एम) शाखा

एम गोस्वामी (29138), 29 जून 2011 से प्रभावी

पी कलाईवनन (29136), 29 जून 2011 से प्रभावी

ए सक्सेना (29139), 29 जून 2011 से प्रभावी

ईई (एल) शाखा

निशांत पंडित (29154), 29 जून 2011 से प्रभावी

एस के सिंह (29146), 29 जून 2011 से प्रभावी

पी मिश्रा (29141), 29 जून 2011 से प्रभावी

प्रभात धारीवाल (29147), 29 जून 2011 से प्रभावी

के श्रीजित (29143), 29 जून 2011 से प्रभावी

एम राजा (29142), 29 जून 2011 से प्रभावी

ए के तिवारी (29145), 29 जून 2011 से प्रभावी

ए चंदा (29140), 29 जून 2011 से प्रभावी

एन के श्रीवास्तव (29150), 29 जून 2011 से प्रभावी

रविन्द्र भट्ट (29152), 29 जून 2011 से प्रभावी

बी अशोक कुमार (29149), 29 जून 2011 से प्रभावी

आर कशमीरा (29148), 29 जून 2011 से प्रभावी

प्रियंका चौबे (28637), पी प्रिया (28634), एम शर्मा (28635),
एन बी पामकर (28636)--04 जुलाई 2011 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

एन शर्मा (28488), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए सिन्हा (28508), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए कुमार (28447), 18 जून 2011 से प्रभावी

डी पी सिंह (28509), 18 जून 2011 से प्रभावी

वी कुमार (28444), 18 जून 2011 से प्रभावी

ए एल भार्गव (28491), 18 जून 2011 से प्रभावी

एस एस रथ (28460), 11 नवम्बर 2011 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर के रैंक से फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

कनुप्रिया कार्की (30530), 27 जून 2011 से प्रभावी

नेहा बिष्ट (30532), 27 जून 2011 से प्रभावी

नेहा साहू (30533), 27 जून 2011 से प्रभावी

प्रियंका ठाकुर (30525), 27 जून 2011 से प्रभावी

टी भट्ट (30524), 27 जून 2011 से प्रभावी

ए नैटियाल (30531), 27 जून 2011 से प्रभावी

रिचा पाण्डे (30529), 27 जून 2011 से प्रभावी

शयाना काद्यान (30528), 27 जून 2011 से प्रभावी

के एच प्रिया चानु (30527), 27 जून 2011 से प्रभावी

रश्मि खत्री (30526), 27 जून 2011 से प्रभावी

मोनिका रांगी (30523), 27 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एम बालेकुन्द्री (30541), 27 जून 2011 से प्रभावी

एस सौम्यानारायणी (30535), 27 जून 2011 से प्रभावी

शुभि शर्मा (30536), 27 जून 2011 से प्रभावी

सुनयना मदान (30540), 27 जून 2011 से प्रभावी

रेखा यादव (30534), 27 जून 2011 से प्रभावी

अदिति गुप्ता (30537), 27 जून 2011 से प्रभावी

नुपुर सिंह (30539), 27 जून 2011 से प्रभावी

लेखा शाखा

एन के राय (30542), 27 जून 2011 से प्रभावी

सपना पाण्डे (30543), 27 जून 2011 से प्रभावी

अर्पिता मुखर्जी (30546), 27 जून 2011 से प्रभावी

पप्पी शुक्ला (30545), 27 जून 2011 से प्रभावी

पल्लवी (30544), 27 जून 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

बी भवानी (30547), 27 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

पूजा बाजपेयी (30135), 27 जून 2011 से प्रभावी

शालिनी सिंह (30137), 27 जून 2011 से प्रभावी

प्रिया ठाकुर (30138), 27 जून 2011 से प्रभावी

सोनली शर्मा (30139), 27 जून 2011 से प्रभावी

ऋतु कुण्डू (30136), 27 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

प्रियंका हुड्डा (30538), 21 अगस्त 2011 से प्रभावी

(27 जून 2011 से नोशनल वरिष्ठता सहित)

फ्लाईंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

ए के पाण्डेय (27300), 17 जनवरी 2005 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

एस के शेवरन (27426), 17 जनवरी 2005 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

अनुराग त्रिपाठी (26636), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

देवी लाल (27308), 17 जनवरी 2005 से प्रभावी

मेट शाखा

पि ए विजयन (25542), 16 जनवरी 2004 से प्रभावी

फ्लाइट लेफ्ट से स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक पर

एफ (पी) शाखा

पि जी रेड्डी (24168), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

शिरोनी कुलकर्णी (25402), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

अविनाश कान्डलीकर (24546), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

अदेश क्षेत्री (24550), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

विरेन्द्र अहलुवालिया (24966), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

जे एफ लशकारी (25150), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

के डी दिपक (25351), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

तुषार पंत (25352), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

अमरीक सिंह (25355), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

वी एस कुमार (25358), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

जे पी शर्मा (25281), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

पि सिंह (25429), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

ए पंडित (25439), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

संजय होसाहाल्ली रामामुरी (25457), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

कश्यप ए डी (25464), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

नवेन्दु वत्स (25725), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

प्रशांत बेहरा (25727), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एस डी हरीश चन्द्रा (25732), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

बी आनन्धन (25741), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

डी जी पाटिल (25747), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

पंकज कुमार (25750), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

राजेश बशिष्ठ (25755), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

अर्शदीप सिंह (25756), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एम के शर्मा (25758), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

के पी जया कुमार (25790), 26 जुलाई 2005 से प्रभावी

ए एस पटवारी (25792), 26 जुलाई 2005 से प्रभावी

अब्राहम एलेक्स (25934), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

एम एस इनबासेकरन (25936), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

ए वासुदेव (25940), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

पी शर्मा (25943), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

एस मेहता (25952), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

अनिश कुमार जे (25954), 17 जनवरी 2005 से प्रभावी

दवलुरी एल किरन (25955), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

सुधीर पंडिता (25956), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

मैबम रोमियो सिंह (25957), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

विश्वजीत शर्माह (25959), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

डी डी भेन्डे (25960), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

वी डी अत्री (25962), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

पी पी प्रशान्त (25963), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

उमेश पुजारी (25964), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी

उन्नी कृष्णन (25965), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

वी दत्ता (25966), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

राजदीप सिंह (26271), 14 जनवरी 2005 से प्रभावी

ए महेश (26641), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

राकेश के सिंह (26642), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

बि पि सिंह (26644), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

आर अग्रवाल (26645), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

के आर पी चन्द्रन (26646), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

पि के गर्ग (24468), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एम के शर्मा (24469), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एस मलाकर (25283), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

नीरज श्रीवास्तव (25247), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी

वी मदान (25259), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 प्रशान्त श्रीवास्तवा (25481), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अदिवी प्रशान्त (25489), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 सुरेन्द्र सिंह राव (25497), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 एस के शर्मा (25817), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 शाजी सी थोमस (25767), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 एन कृष्णा किशोर (25777), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अरविन्द रावत (25779), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 बि फिरोज (25780), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 ए राजेश (25786), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 वी पुन्डीर (25797), 26 जुलाई 2005 से प्रभावी
 वी के पुरोहित (25799), 26 जुलाई 2005 से प्रभावी
 वी के मिश्रा (25970), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 सतपाल सिंह (25972), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 राजीव चन्देल (25974), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 संदीप मिश्रा (25975), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 एम के लबरू (25977), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 विभू शर्मा (25978), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 ए के यादव (25980), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 राकेश कुमार (25981), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 नीतिन कनाडे (25982), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 शैलेश कुमार (25983), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 अनित शर्मा (25985), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 अनुज तिवारी (25986), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 अजली जुयी (25987), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 एम एस प्रियानी (25988), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 पंकज सक्सेना (25991), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 जी इलैनोवेल (25993), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 अलोक कुमार (25996), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 राकेश दलाल (25997), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 ए के सिंह (25998), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 अशीष शर्मा (25999), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 गुरप्रीत सिंह (26001), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

कार्थीकेयन (26003), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 एम ए दुबे (26004), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 मन्दीप सिंह ग्रेवाल (26006), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 जसयज सिंह (26007), 03 जनवरी 2005 से प्रभावी
 पुल्लुरी प्रवीन बाबु (26009), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 डी आर यादव (26276), 01 जनवरी 2005 से प्रभावी
 आर कुमार (26510), 07 जनवरी 2006 से प्रभावी
 तेजीन्दर सिंह (26647), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 एच वी अरोड़ा (26648), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 गौरव शर्मा (26649), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 सैयद एम जलाली (26650), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 धीरज यादव (26651), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 जतीन आर चौरे (26652), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी
 एन के सामल (27109), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एच कोथे (25032), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 रेखा शिवकुमार (25220), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 वेदावरता बराह (25353), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 निधि जुयल (25408), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 ममता सिंह यादवा (25410), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 एस एस महेश (25720), 25 जून 2005 से प्रभावी
 सी मजुमदार (23595), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अकाश दीक्षित (24260), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 जी एस अरोड़ा (24564), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 एम माथुर (24573), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अरोकिया राज (24578), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 नविन भाटिया (24582), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 बि के विशनोई (25157), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अरूण कुमार दास (25362), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 जय प्रकाश (25363), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 आनन्द मानव (25364), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 प्रमोद कुमार त्रिपाठी (25369), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 विजय सिन्धु (25370), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 तेजवीर सिंह (25372), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

नविन किशोर नैथानी (25373), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 के एस रेड्डी (25374), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 अशोक कुमार मिश्रा (25376), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 सौरभ शूद (25405), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 मिनाक्षी निगम (25406), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 रजनीश झा (25698), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 पी एम वार्क (25531), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी
 आर के सिंह (25533), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी
 रवीन्द्र नाथ दुबे (25536), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी
 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक पर

लेखा शाखा

पिलाका वेन्कट राव (24299), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 टी आशा ज्योथीरमई (25038), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 सी बी नारायणन (25395), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 कविता कथुरिया चुग (25418), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस डी निगम (24276), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 के बी सुदर्शन (25383), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 डी के तिवारी (25386), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 डी शर्मा (25387), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 शालिनी आनन्द (25411), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 प्रीति असवाल (25415), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 रिचर्ड डेविड मोसेस (25420), 19 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

शरद आर केसकर (24586), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 डी वी सिंह (24583), 21 जून 2006 से प्रभावी
 पी एम बेनीवाल (25539), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी
 ए के सिंह बिशनोई (25540), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी

मेट शाखा

पी ए विजयन (25542), 16 जनवरी 2005 से प्रभावी
 स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक पर

ए ई (एल) शाखा

जी गोविन्द (21449), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

पी डिसुजा (20594), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के मूल रैंक पर
 संभारिकी शाखा

डी के नागर (14520), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी
 फ्लाईंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के स्थायी रैंक पर

आई(एम) शाखा

प्राजुल कटोच (30267), हरिकृष्णन उन्नीकृष्णनन (30268), सौरभ
 देशवाल (30269), आर आर जे प्रदीप (30263), मनोज कश्यप
 (30264), मुदित गढोक (30266), चतेश सिसौदिया (30261), मिशू
 रावत (30262), शुभंकर साहा (30259), थलज कपूर (30260),
 राजेश भारुंगर (30265), 08 जनवरी 2010 से प्रभावी

आई(एल) शाखा

डी एस तंवर (30302), एस गोप कुमार (30300), दीक्षांत बोहरा
 (30309), पी के वत्स (30308), संदीप वालिया (30307), विकास
 जाखड़ (30306), के एस संगीरा (30305), विनय कंसल (30294),
 आर एस संधू (30293), गजेन्द्र पाठक (30301), वी एस राणा
 (30298), विधु राठौड़ (30297), पावेल जैन (30299), पुनीत सिंहल
 (30296), मंदीप सिद्धू (30295), पी मंडल (30688), एस सिंह
 (30687), दीपक यादव (30275), ए एस भट्टाचार्य (30274), साहिल
 दीप (30314), विनोद चन्द्रा (30273), पी ए निखिल (30272),
 विकास कुमार (30271), एस राय (30313), एस मुखर्जी (30312),
 एस के एस बघेल (30311), संकेत वर्मा (30270), आर निखिल
 (30310), रोहित राजन (30283), एस के नाथ (30316), नवीन एन
 (30315), राकेश कुमार (30281), हिमांशु द्विवेदी (30282), वाई के
 बेटेलिया (30280), धीरज कुमार (30279), डी एस रावत (30278),
 आयुष गुप्ता (30277), जॉयदीप चन्द्रा (30276), खालिद परवेज
 (30303), विकास कौशिक (30304), एम के फिरोज (30290),
 प्रमोद बिशनोई (30291), रोहित गुप्ता (30292), आशुतोष सिंह
 (30287), टी एस रथीश (30289), साकेत आर्य (30288), संजीव
 बाबू (30284), ए राघवेन्द्र (30285), के आर पांडियन (30353), के
 साई प्रवीन (30286), 08 जनवरी 2010 से प्रभावी

आई (एम) शाखा

एन सिंह (30550), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 डी के दूबे (30548), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर मान (30556), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर जे प्रदीप (30551), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एम कुमार (30557), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस तोमर (30552), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर बाली (30554), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी

आई (एल) शाखा

पी गंगवाल (30684), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी

आर गोपालकृष्णन (30617), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस हुई (30616), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर चक्रवर्ती (30615), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 सिबिन डीपी (30614), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 गौतम श्रीवास्तव (30613), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए कुमार (30612), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 जे कुमार (30611), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 जितेन्द्र (30610), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 पी के राठी (30609), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 पी एस मलिक (30608), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वी पारिक (30604), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वी चौहान (30603), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 जे सिंह (30602), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एम शर्मा (30601), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए त्यागी (30600), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 पी सेठ (30590), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 बी एस जसवाल (30587), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर के अहलावत (30586), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 जे जाम्बल (30585), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 अंकित शर्मा (30584), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वी के शर्मा (30583), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 गौरव (30582), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 पी शर्मा (30581), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए जैन (30580), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए एल पद्मानाभन (30578), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस कुमार (30565), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर खण्डेलवाल (30560), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एम एम गुट्टल (30559), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वी के दीक्षित (30558), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 सी वी अचार (30563), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 के वधावन (30562), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस के दत्ता (30561), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वी कुमार (30564), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर कुमार (30591), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी

ए के कुमार (30689), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए सक्सेना (30634), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए कुमार (30566), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए मुले (30571), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आशीष चंदन (30607), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस मित्तल (30606), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस के सिंह (30589), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 बी बजाज (30588), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 ए पुजारी (30605), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एम सिंह (30569), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 डी शिव कृष्णा (30568), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 बी अरुणाचलम (30567), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 रविकांत (30577), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 डी बी वर्मा (30576), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 टी घोष (30592), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 वाई के यादव (30575), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 विशाल शर्मा (30574), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर शर्मा (30573), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एच के रवि (30599), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस यादव (30598), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 आर चक्रवर्ती (30596), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 जे एस मल्ही (30595), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 पी गर्ग (30594), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 शरद समर्थ (30593), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी

आई (एम) शाखा

ए आर रमन (30549), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एस पी थॉमस (30553), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 एम करुपाकर (30579), 02 जुलाई 2010 से प्रभावी
 सोनिका कुमारी (30640), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी
 ए चोपड़ा (30618), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी
 जी सिंह (30619), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी
 ए पी देसाई (30620), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी
 के के हिरवानी (30621), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी
 ए यादव (30622), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस हटवाल (30639), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एई (एल) शाखा

वी गायत्री (30677), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

के दीक्षित (30676), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ममता डी (30675), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

जैमिनी (30674), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए निगम (30673), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम गौतम (30672), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

तृप्ति वर्मा (30670), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

टी कौर (30669), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

शिवांगी (30668), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम श्रीवास्तव (30667), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए सिसौदिया (30666), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

नेहा गौतम (30665), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

डी राज (30664), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस गायेल (30663), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस मोहिते (30662), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस गुप्ता (30661), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए सिंह (30654), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

सोनिका (30653), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

यू सोहलोटे (30652), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम गुप्ता (30651), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम कुमारी (30650), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

पी करवासरा (30649), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

जे चौहान (30647), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

राजश्री अभिरमन (30646), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

के ठकराल (30629), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए शर्मा (30628), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए गुप्ता (30627), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

पी जसवंत कुमार (30626), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

जी चौधरी (30625), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एच हिमरजनी (30624), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए के सिंह (30623), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एन भोरनिया (30636), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए सिन्हा (30635), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

आर वीरावल्ल्मी (30633), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

ए पी के सहगल (30644), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

टी आर्या (30643), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एन खान (30642), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम के बहल (30631), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

आर कृष्णास्वामी (30630), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

बी पाण्डे (30645), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

आर चौहान (30638), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

जे खुराना (30637), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस चोपड़ा (30678), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

रेनी शर्मा (30679), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

पी रैना (30655), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

पी जोशी (30656), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

जी शारदा (30657), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एम त्यागी (30658), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

डी काला (30660), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

आर के एम जोसेफ (30659), 13 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस नायर (30685), 14 जुलाई 2011 से प्रभावी

एस के गुप्ता (30686), 17 जुलाई 2011 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

रोहित तिवारी (30507), 27 जून 2011 से प्रभावी

अभिषेक वशिष्ठ (30510), 27 जून 2011 से प्रभावी

एस कुमार (30505), 27 जून 2011 से प्रभावी

मीत कुमार (30501), 27 जून 2011 से प्रभावी

पी सिंह (30495), 27 जून 2011 से प्रभावी

ए के गोकर (30498), 27 जून 2011 से प्रभावी

ऋषिपाल राणा (30497), 27 जून 2011 से प्रभावी

प्रशांत कौडाल (30499), 27 जून 2011 से प्रभावी

आर वेरेकर (30491), 27 जून 2011 से प्रभावी

सी शेखावत (30500), 27 जून 2011 से प्रभावी

अर्चित अग्निहोत्री (30496), 27 जून 2011 से प्रभावी

ए वी सिंह (30490), 27 जून 2011 से प्रभावी
 डी एस राठौड़ (30494), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अजय चन्द्रा (30493), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए एस चंदेल (30514), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अनिरुद्ध पठानिया (30511), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम के सिंह (30513), 27 जून 2011 से प्रभावी
 योगेश मेहता (30489), 27 जून 2011 से प्रभावी
 हिमांशु (30504), 27 जून 2011 से प्रभावी
 प्रोतिम दास (30503), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अमित सिंह (30516), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आसिफ इकबाल चौहान (30502), 27 जून 2011 से प्रभावी
 वी कुमार (30506), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम पी एस गोदारा (30464), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस के सिरोही (30441), 27 जून 2011 से प्रभावी
 यू एस तवहरे (30440), 27 जून 2011 से प्रभावी
 प्रतीक गुप्ता (30439), 27 जून 2011 से प्रभावी
 के एस राठौड़ (30438), 27 जून 2011 से प्रभावी
 जे सिमोन (30434), 27 जून 2011 से प्रभावी
 टी के राय (30433), 27 जून 2011 से प्रभावी
 सी प्रकाश (30436), 27 जून 2011 से प्रभावी
 सचिन घाडगे (30462), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए जैन (30461), 27 जून 2011 से प्रभावी
 विकास चौहान (30452), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए वी बसेटी (30451), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पंकज पाण्डे (30450), 27 जून 2011 से प्रभावी
 कुलदीप सिंह (30449), 27 जून 2011 से प्रभावी
 शैकी जैन (30448), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आशीष कुमार निम (30447), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अवधेश त्रिपाठी (30446), 27 जून 2011 से प्रभावी
 टी वी आर सिंह (30445), 27 जून 2011 से प्रभावी
 चंदन पटनायक (30444), 27 जून 2011 से प्रभावी
 तुहिन मुखर्जी (30413), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अमोल दीक्षित (30412), 27 जून 2011 से प्रभावी
 जनमीत शर्मा (30411), 27 जून 2011 से प्रभावी
 मुकुल महाजन (30410), 27 जून 2011 से प्रभावी
 विवेक कुमार (30409), 27 जून 2011 से प्रभावी
 दीपक संसानवाल (30408), 27 जून 2011 से प्रभावी
 नीरज यादव (30443), 27 जून 2011 से प्रभावी

एस त्यागी (30421), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए नेगी (30426), 27 जून 2011 से प्रभावी
 दीपू महेश (30457), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ऋषि कुकरेती (30456), 27 जून 2011 से प्रभावी
 नटराज डागर (30455), 27 जून 2011 से प्रभावी
 प्रेम प्रतीक (30425), 27 जून 2011 से प्रभावी
 के डी दीक्षित (30424), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी मिसकीन (30423), 27 जून 2011 से प्रभावी
 नवीन पी मेनन (30460), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अजय कुमार (30459), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम मिश्रा (30454), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस बुधिया (30422), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी वी बोरकर (30458), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस बदियारी (30430), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आर के साहू (30429), 27 जून 2011 से प्रभावी
 वी मनु (30428), 27 जून 2011 से प्रभावी
 राजाजी सिंह (30407), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ज्ञानेन्द्र पाण्डे (30406), 27 जून 2011 से प्रभावी
 विभु माहेश्वरी (30405), 27 जून 2011 से प्रभावी
 सूर्यकांत थलवार (30404), 27 जून 2011 से प्रभावी
 गौरव पालीवाल (30403), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस के सिंह (30402), 27 जून 2011 से प्रभावी
 फैज रफीउद्दीन शेख (30400), 27 जून 2011 से प्रभावी
 हर्षित त्यागी (30401), 27 जून 2011 से प्रभावी
 सी काजला (30419), 27 जून 2011 से प्रभावी
 रतनदीप जगदाले (30432), 27 जून 2011 से प्रभावी
 बिजोयेन्द्र गंगोपाध्याय (30431), 27 जून 2011 से प्रभावी
 हनुमंत राव सारथी (30399), 27 जून 2011 से प्रभावी
 नीरज शर्मा (30383), 27 जून 2011 से प्रभावी
 वी लोगेश (30389), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी शर्मा (30388), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए वी नवीन कुमार (30387), 27 जून 2011 से प्रभावी
 कृष्ण कुमार शर्मा (30386), 27 जून 2011 से प्रभावी
 भास्करन हरिहरन (30385), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम धर (30397), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आलोक चौधरी (30396), 27 जून 2011 से प्रभावी
 जॉय चन्द्रा (30398), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ओ प्रकाश (30384), 27 जून 2011 से प्रभावी

सिद्धार्थ नेगी (30395), 27 जून 2011 से प्रभावी
 के प्रवीन (30394), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अर्पित ढाका (30393), 27 जून 2011 से प्रभावी
 निखिल पांडे (30392), 27 जून 2011 से प्रभावी
 भारत सिंह (30390), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस जी कृष्णन (30463), 27 जून 2011 से प्रभावी
 हिमांशु गुप्ता (30382), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आर के ललित (30417), 27 जून 2011 से प्रभावी
 प्रशांत द्विवेदी (30416), 27 जून 2011 से प्रभावी
 राहुल तिवारी (30415), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आशुतोष सेखरी (30414), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एन के धीमान (30418), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी भारद्वाज (30435), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम सिंह (30437), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी सिन्हा (30442), 27 जून 2011 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

अंचू के (30453), 27 जून 2011 से प्रभावी
 वी के रथ (30515), 27 जून 2011 से प्रभावी
 अंशुल अग्रवाल (30509), 27 जून 2011 से प्रभावी
 राहुल सिंह (30420), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए एम एस सांबयाल (30508), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस कुमार (30427), 27 जून 2011 से प्रभावी
 सौरभ पूनिया (30519), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए सक्सेना (30520), 27 जून 2011 से प्रभावी
 मनोज रावत (30517), 27 जून 2011 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

पी पी रानाडे (30521), 27 जून 2011 से प्रभावी
 दिव्य ज्योति (30522), 27 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

बी एस वेंकट राव (30486), 27 जून 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

ए के शुक्ला (30487), 27 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

एस एस सैनी (30488), 27 जून 2011 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

एस भट्टाचार्य (30471), 27 जून 2011 से प्रभावी
 विजय कुमार (30466), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम के राय (30467), 27 जून 2011 से प्रभावी

ए चंदेल (30468), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आनंद सिंह शेखावत (30469), 27 जून 2011 से प्रभावी
 ए पी मिथिलेश (30465), 27 जून 2011 से प्रभावी
 शीतल शर्मा (30470), 27 जून 2011 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एम के सिंह (30474), 27 जून 2011 से प्रभावी
 बिवेक शर्मा (30473), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एम एम महंत (30472), 27 जून 2011 से प्रभावी

लेखा शाखा

आर एस सिद्धू (30480), 27 जून 2011 से प्रभावी
 तुमुलू साई प्रसाद (30481), 27 जून 2011 से प्रभावी
 गौरव त्यागी (30482), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस आर सिंह (30476), 27 जून 2011 से प्रभावी
 एस पी जुगरान (30477), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पीयूष अग्रवाल (30475), 27 जून 2011 से प्रभावी
 के एल ऑगस्टाइन (30478), 27 जून 2011 से प्रभावी
 आर एस सिंह (30479), 27 जून 2011 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

टी रमेश कुमार (30485), 27 जून 2011 से प्रभावी
 वैद्यनाथन (30484), 27 जून 2011 से प्रभावी
 रोशन लाल (30483), 27 जून 2011 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

अशोक (30134), 27 जून 2011 से प्रभावी
 पी शामी (30133), 27 जून 2011 से प्रभावी

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 103, दिनांक 20 फरवरी 2013—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समाने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं :—

गिरीजा कुमारी, पी एस 'ए', जीटीआरई बैंगलोर, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एमआर सुधा कुमारी, प्रशासनिक अधिकारी, जीटीआरई बैंगलोर, 24 सितम्बर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

ए पी तारु, प्रशासनिक अधिकारी, एआरडीई पुणे, 23 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

बैद्यनाथन शातां, पी एस 'ए', एआरडीई पुणे, 30 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एस एस रामगीर, पी एस 'ए', एआरडीई पुणे, 30 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

ओ वी रामाचन्द्रन, पी एस 'ए', एआरडीई पुणे, 30 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

आर मेगानाथन, प्रशासनिक अधिकारी, केयर बैंगलोर, 25 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एम एल रविशंकर, प्रशासनिक अधिकारी, केयर बैंगलोर, 11 अप्रैल 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

सुकन्या एस, पी एस 'ए', डीएफआरएल मैसूर, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

भीम चरन माझी, प्रशासनिक अधिकारी, सीसीई (आरएण्डडी) पूर्व, 26 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

के राघवन, प्रशासनिक अधिकारी, एलआरडीई बैंगलोर, 23 नवम्बर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एस डी पवार, प्रशासनिक अधिकारी, एचईएमआरएल पुणे, 12 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एस मल्लेशा, प्रशासनिक अधिकारी, अनुराग हैदराबाद, 30 मई 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

ओ सत्यानारायण, प्रशासनिक अधिकारी, एएसएल हैदराबाद, 27 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

परमजीत कौर, प्रशासनिक अधिकारी, टीबीआरएल चंडीगढ़, 18 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

सुखदेव वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, सासे चंडीगढ़, 20 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

विद्या सागर, पी एस 'ए', सासे चंडीगढ़, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

सेस राम चौहान, पी एस 'ए', सासे चंडीगढ़, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

अम्बिका मोहन, पी एस 'ए', डीएमआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

के मोतीलाल, पी एस 'ए', डीएमआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

के एन लक्ष्मी कुमारी, पी एस 'ए', डीएमआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

जी ए एम भारती, पी एस 'ए', डीएमआरएल, हैदराबाद, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

मीराजुन्नीसा, प्रशासनिक अधिकारी, डीएमआरएल, हैदराबाद, 03 दिसम्बर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

डी उषा रानी, प्रशासनिक अधिकारी, डीएलआरएल, हैदराबाद, 29 नवम्बर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एमवीएल नरसिम्हा राव, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

आर डी आनन्द कुमार, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

जे वी रमना मूर्ति, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

पी नागा लक्ष्मी, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

वी आर के सरस्वती, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

के पदमावती देवी, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

वाई वेंकटेश्वरलू, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

डी नागामलेश्वरम्मा, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

बी निर्मला, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

पी डी राजेन्द्र कुमार, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

जी एस रत्ना कुमारी, पी एस 'ए', डीएलआरएल, हैदराबाद, 29 अक्टूबर 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

चरन पाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, सासे चंडीगढ़, 21 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

रतन चन्द मस्ताना, प्रशासनिक अधिकारी, टीबीआरएल चंडीगढ़, 19 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

ए वी एस नायर, प्रशासनिक अधिकारी, केयर बैंगलोर, 07 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

ए के नारायणन, प्रशासनिक अधिकारी, केयर बैंगलोर, 11 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

शिवमल्लू, प्रशासनिक अधिकारी, केयर बैंगलोर, 11 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

टी चितरा, प्रशासनिक अधिकारी, सीसीई (आर एण्ड डी) साउथ सिकंदराबाद, 28 मई 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

सी लीला कुमारी, प्रशासनिक अधिकारी, सीसीई (आर एण्ड डी) साउथ सिकंदराबाद, 06 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

मीरा पी राज, प्रशासनिक अधिकारी, डेयर बैंगलोर, 06 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

एल राजण्णा, प्रशासनिक अधिकारी, डेयर बैंगलोर, 06 जून 2012, पीबी-2, ग्रेड पे 4,600/-

राजीव रंजन खां
उप निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th March 2013

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 101, dated 19th February 2013—The President is pleased to make the following appointment :—

Raj Kumar Singh, Sr Accounts Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 22 Oct 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) and Grade Pay Rs. 5,400/-

RAJEEV RANJAN KHAN
Dy Director (Pers)

AIR FORCE

No. 102, dated 19th February 2013—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

Wg Cdr to be Subs GP Capt (TS)

ADM BRANCH

MIK Reddy (18157), wef 06 Dec 2011
V Subba Rao (18160), wef 06 Dec 2011
D Sharma (18143), wef 06 Dec 2011
RK Gupta (18137), wef 06 Dec 2011
M Shah (18153), wef 06 Dec 2011
M Srivastava (18142), wef 06 Dec 2011
S Chowdhury (18135), wef 06 Dec 2011
KS Roy (18154), wef 06 Dec 2011
J Joseph (18141), wef 06 Dec 2011
A Saxena (18147), wef 06 Dec 2011

LGS BRANCH

K Biswas (18178), wef 06 Dec 2011
PS Multani (18177), wef 06 Dec 2011
AB Patel (18179), wef 06 Dec 2011

ACCTS BRANCH

TN Srinivas (18172), wef 06 Dec 2011
AN Babu (18169), wef 06 Dec 2011
E Jacob (18171), wef 06 Dec 2011
MVR Murthy (18170), wef 06 Dec 2011

LGS BRANCH

AK Rai (17786), KR Ramakrishna Raja (17788), A Pande (17789), wef 21 Dec 2010

ADM BRANCH

M Bapiraju (17888), K Ranjith (17890), PJ Nair (17884), RS Tewari (17883), A Senapati (17900), PK Borah (17899), IM Asif (17893), V Mohandas (17897), P Singh (17892), AV Chandrasekaran (17898), wef 14 Jun 2011

ACCTS BRANCH

SS Akurati (17913), UK Sharma (17901), AK Nigam (17915), VK Sharma (17921), NR Prasad (17919), K Kalyankumar (17907), M Burra (17922), TS Khurana (17904), RK Dash (17911), wef 14 Jun 2011

MET BRANCH

MK Hota (17586), R Samidurai (17589), I Augustine (17590), AK Srivastava (17585), wef 14 Jun 2011

AE (L) BRANCH

SLS Prasad (18667), wef 19 Aug 2011

F (P) BRANCH

TK Singha (17857), BG Karve (17877), V Kapur (17840), Samir (17865), NK Rai (17868), S Deodhar (17871), OJS Das (17860), wef 14 Jun 2011

ADM BRANCH

PK Joshi (17852), wef 14 Jun 2011

AE (M) BRANCH

VVSR Krishna (18460), PC Pandey (18528), AK Tiwari (18490), BVS Reddy (18450), A Chopra (18494), MA Khan (18445), B Singh (18441), BNM Bheemaiah (18448), A Sarmandal (18459), OP Singh (18514), A Golla (18538), N Chandrasekhar (18500), V Haridas (18542), M Chakrapani (18436), BAS Acharya (18512), MG Shankaragoudar (18439), M Venudhar Reddy (18443), R Kumar (18442), RT Issac (18540), S Mondal (18435), MA Khan (18445), wef 17 Aug 2011

AE (L) BRANCH

N Thinakaran (18507), J Venkatasubramanian (18480), PS Rathore (18506), OP Sharma (18544), R Fayaz Ahamed (18474), MK Sharma (18469), V Chandra (18981), BS Nayyar (18470), DG Krishna (18465), R Koul (18472), R Chansoria (18476), F Rehman (18496), RRJ Sudarshan (18471), D Kamesh (18473), MZ Rahman (18509), CSP Gupta (18508), BS Nayyar (18470), wef 17 Aug 2011

F (P) BRANCH

V Sunil Kumar (18102), wef 06 Dec 2011
B Roy (18131), wef 06 Dec 2011
SK Mehta (18117), wef 06 Dec 2011
SK Nihalani (18103), wef 06 Dec 2011
AD Singh (18130), wef 06 Dec 2011
PM Srinivasan (18104), wef 06 Dec 2011
S Mohapatra (18127), wef 06 Dec 2011

JS Rana (18132), wef 06 Jun 2012

Rajiv Raj Gera (18110), wef 27 Dec 2011

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

F (P) BRANCH

Nitin Jain (24932), Ajit Kumar Tiwari (24955), Gaurav Verma (24928), Vinod Negi (24938), J Umrao (24945), S Singh (24954), Tewari S (24943), G Sawant (24940), A Srivastava (24952), BK Singh (24951), J Singh (24933), P Sanjay (24930), RKI Chachadi (24914), RN Pawar (24903), K Mishra (24902), V Singh (24920), YS Thakran (24910), RR Tamhane (24897), AV Kulkarni (24896), NK Bala (24895), S Singh (24894), A Midha (24890), N Singh (24887), DC Tiwari (24921), Atul A Mudbidri (24946), Kanvinde A Anil (24944), Sunil Kumar Yadav (24941), AK Budhwar (24936), Dushyant Dahiya (24937), Dasari Ajay Gopal (24935), Piyush Dhawan (24886), M Kiran Kumar Reddy (24931), Suresh Babu Pakala (24927), Tarun Kumar Singh (24924), Sebastian Anil Kurian (24922), S Anil (24919), A Jawrewal (24912), N Manish (24906), T Sharma (24904), Harvinder Singh Sandhu (24907), Bemalkhedkar Kedar (24901), Ashok Kumar (24900), Ashwani Jain (24898), Saravanan Sengamalai (24891), IJS Hundal (24888), D Sharma (24949), S Pandey (24948), S Mitra (24923), Girish Kukreja (24916), Mohit Saxena (24915), K N Singh (24953), Ritesh Chandra Tiwari (24960), Mangesh Ashok Zade (24958), Vishal Anil Kale (24950), Abhijeet A Chendke (24913), Alok Kumar Thakur (24911), Vikas Tomar (24909), Prateek Godiyal (24957), Amit Mehta (24956), wef 20 Dec 2010

ADM BRANCH

Verma N (24908), Ripu Daman Singh (24926), wef 20 Dec 2010

F (P) BRANCH

RS Sodhi (25043), wef 27 Dec 2010

Manish Sharma (25040), wef 27 Dec 2010

Pavan Kumar Dhoreliya (25041), wef 27 Dec 2010

M Talwar (24947), wef 23 Jul 2011 with notional seniority wef 20 Dec 2010

R Deshmukh (24905), wef 28 Dec 2010 with notional seniority wef 20 Dec 2010

AJ Kolhatkar (24892), wef 28 Dec 2010 with notional seniority wef 20 Dec 2010

VS Saini (25060), wef 20 Dec 2011 with notional seniority wef 20 Jun 2011

Yogesh Grewal (25068), wef 03 Sep 2011 with notional seniority wef 20 Jun 2011

F (N) BRANCH

Sumit Kapoor (25145), PK Mishra (25151), JF Lashkari (25150), Ashutosh Tiwari (25149), Amit Khanna (25143),

Gautam Sud (25147), VK Tripathi (25142), MK Srivastav (25146), PK Mishra (25148), wef 20 Jun 2011

Alok Shrivastava (25144), wef 20 Dec 2011 with notional seniority wef 20 Jun 2011

Varun Gupta (24965), Arun Kumar Bahuguna (24961), Deepak Kumar Sahani (24964), Jeetendra Kumar (24962), Rajesh Manoharan Nair (24963), Kinshuk Kumar (24967), Ratnakar Singh (24969), Manish Shukla (24970), Kuldeep Singh Chauhan (24971), Vinay Agnihotri (24968), wef 20 Dec 2010

F (P) BRANCH

Mahan Kalita (25109), C Jaideep (25097), Nitin Batra (25140), M Choudhary (25119), JP Singh (25139), A Sreedhar (25117), NK Dubey (25116), Arvind R Mahadik (25104), Deepak Kumar (25103), Rahul Arora (25102), Indranil Nandi (25099), Sanjay Kumar Chandan (25094), Amarendra Samal (25093), Deepak Pant (25092), Karan Hajela (25086), Y Kumar (25085), Nitin Mishra (25084), VT Prakash (25083), JD Masurkar (25082), Rohit Kapil (25081), K Ramji Yadov (25091), Amit Raina (25089), VK Sharma (25098), U Sivam (25090), PL Garg (25100), CUV Rao (25087), Nalin Sawhney (25088), P Yadav (25132), Santosh Tiwari (25080), PP Misra (25079), Brijesh Paul (25078), Rishabh Mittal (25077), Prashant Rawat (25076), Vikram Mehra (25075), Sidhartha Handa (25074), Vipul Bhatia (25073), Manish Kumar Pandey (25135), Rajat Mahajan (25072), AP Deshpande (25071), Sumit Pol (25138), PP Huddar (25137), A Dave (25134), R Sharma (25131), PC Pant (25130), AS Rajput (25129), P Johri (25128), R Gautam (25127), BS Randhawa (25126), SS Viridi (25125), V Kashyap (25124), AS Thakur (25121), D Maitra (25122), Santosh Kumar Yadav (25106), MV Mudliar (25105), A Anish (25136), B Pathak (25123), Siddhartha Rawat (25115), Sandeep Kumar Kinha (25063), GS Sudan (25070), SS Grewal (25061), Prashant Agnihotri (25059), RS Chambyal (25112), AA Phansalkar (25114), SK Mishra (25113), VP Singh (25111), Amit Jain (25110), Manish Maindargi (25108), Darryl Castelino (25107), Shalabh Sharma (25069), Debanjan Mandal (25066), SV Saharan (25065), wef 20 Jun 2011

ADM BRANCH

Pradyumna Gokhale (25101), RD Fialho (25133), Yashdeep Dabass (25064), wef 20 Jun 2011

LGS BRANCH

AV Muzumdar (25096), wef 20 Jun 2011

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

ADM BRANCH

BS Rana (28524), wef 18 Jun 2011

S Sunil Kumar (28543), wef 18 Jun 2011

JS Rana (28533), wef 18 Jun 2011

Dipankar (28537), wef 18 Jun 2011

AS Rawat (28540), wef 18 Jun 2011

G Pati (28546), wef 18 Jun 2011

V Krishna Kumar (28541), wef 18 Jun 2011
G Kishore (28525), wef 18 Jun 2011
P Abraham (28523), wef 18 Jun 2011
A Virk (28545), wef 18 Jun 2011
A Darbari (28547), wef 18 Jun 2011
P Phani Bhushan Dora (28534), wef 18 Jun 2011
S Gopi (28518), wef 18 Jun 2011
P Agarwal (28530), wef 18 Jun 2011
SK Upadhyay (28531), wef 18 Jun 2011
MK Kapil (28535), wef 18 Jun 2011
A Sharma (28536), wef 18 Jun 2011
C Hari (28510), wef 18 Jun 2011
SS Srivastava (28511), wef 18 Jun 2011
KJ Sijo (28532), wef 18 Jun 2011
AK Verma (28526), wef 18 Jun 2011
C Stanley John (28522), wef 18 Jun 2011
B Singh (28527), wef 18 Jun 2011
A Kalaan (28539), wef 18 Jun 2011
BS Attri (28538), wef 18 Jun 2011
SH Haq (28542), wef 18 Jun 2011
AS Yadav (28528), wef 18 Jun 2011
V Prakash (28521), wef 18 Jun 2011
S Dey (28517), wef 18 Jun 2011
V Saini (28516), wef 18 Jun 2011
V Sundar (28515), wef 18 Jun 2011
S Subash (28529), wef 18 Jun 2011
JK Singh (28520), wef 18 Jun 2011
D Gaonkar (28519), wef 18 Jun 2011
G Vijaya Kumar (28514), wef 18 Jun 2011
P Ragunath (28513), wef 18 Jun 2011
G Karthikeyan (28512), wef 18 Jun 2011

ACCTS BRANCH

Pankaj Rishi (28548), wef 18 Jun 2011
BV Kumar (28552), wef 18 Jun 2011
A Bhattasali (28551), wef 18 Jun 2011
V Ronald Levis (28557), wef 18 Jun 2011
RB Patil (28554), wef 18 Jun 2011
C Syamkumar (28555), wef 18 Jun 2011
R Shankar (28549), wef 18 Jun 2011

Devinder Singh (28550), wef 18 Jun 2011
S Unni (28553), wef 18 Jun 2011
S Dhanushkodi Raja (28556), wef 18 Jun 2011

EDN BRANCH

PJ Monteiro (28563), wef 18 Jun 2011
NS Sundar (28562), wef 18 Jun 2011
BS Rathore (28559), wef 18 Jun 2011
I Manoj Menon (28561), wef 18 Jun 2011
S Hameed (28558), wef 18 Jun 2011
R Malik (28560), wef 18 Jun 2011

MET BRANCH

JK Mehta (28157), wef 18 Jun 2011
B Nepal (28156), wef 18 Jun 2011

ADM BRANCH

SS Datta (28594), wef 13 Aug 2011 with notional seniority
wef 03 Jul 2011

S Bhattacharjee (28578), R Sharma (28577), P Ojha
(28573), S Rao (28572), NK Nair (28569), P Arun (28575),
K Negi (28576), B Biswas (28574), N Sharma (28580), G
Bist (28579), V Yadav (28570), S Chakraborty (28571),
wef 18 Jun 2011

ACCTS BRANCH

A Bhattacharjee (28582), I Gautam (28587), N Srivastava
(28584), SP Jain (28585), R Kaur (28581), Mukesh Pannu
(28586), B Yadav (28588), PR Joshi (28583), wef 18 Jun
2011

EDN BRANCH

D Rawat (28590), A Chaudhary (28591), R Prithviraj
(28592), V Dixit (28593), wef 18 Jun 2011

MET BRANCH

Mukesh Kumari (28160), Neetu Singh (28159), wef
18 Jun 2011

Shruti Sharma (28158), wef 09 Sep 2011

EDN BRANCH

A Yadav (28589), wef 30 Sep 2011

F (P) BRANCH

K Dogra (28480), wef 18 Jun 2011
VG Vardhan (28479), wef 18 Jun 2011
A Tripathi (28487), wef 18 Jun 2011
ABS Sangma (28470), wef 18 Jun 2011
K Ramesh (28469), wef 18 Jun 2011
AV Pawale (28478), wef 18 Jun 2011
M Basu (28502), wef 18 Jun 2011

T G Jacob (28495), wef 18 Jun 2011
 RK Dudi (28468), wef 18 Jun 2011
 PK Pandey (28466), wef 18 Jun 2011
 TS Singh (28477), wef 18 Jun 2011
 Varun Bhoj (28507), wef 18 Jun 2011
 M Karpal (28494), wef 18 Jun 2011
 N Yadav (28493), wef 18 Jun 2011
 Rahul Chauhan (28492), wef 18 Jun 2011
 GM Charles (28471), wef 18 Jun 2011
 V Vikram (28457), wef 18 Jun 2011
 AK Goel (28455), wef 18 Jun 2011
 AP Singh (28454), wef 18 Jun 2011
 U Mehta (28453), wef 18 Jun 2011
 A Raina (28452), wef 18 Jun 2011
 VK Patel (28451), wef 18 Jun 2011
 A Yadav (28450), wef 18 Jun 2011
 A Pal (28476), wef 18 Jun 2011
 A Chechi (28475), wef 18 Jun 2011
 P Srivastava (28486), wef 18 Jun 2011
 A Mathur (28474), wef 18 Jun 2011
 S Yedavalli (28500), wef 18 Jun 2011
 RK Mishra (28499), wef 18 Jun 2011
 AS Suhag (28498), wef 18 Jun 2011
 C Telang (28485), wef 18 Jun 2011
 V Tanwar (28473), wef 18 Jun 2011
 SK Chauhan (28472), wef 18 Jun 2011
 VV Banka (28484), wef 18 Jun 2011
 MR Kamal (28482), wef 18 Jun 2011
 RS Thakur (28481), wef 18 Jun 2011
 Amardeep (28443), wef 18 Jun 2011
 A Sethi (28496), wef 18 Jun 2011
 A Nagpal (28505), wef 18 Jun 2011
 C Bhuyan (28504), wef 18 Jun 2011
 SK Sharma (28503), wef 18 Jun 2011
 SU Sathe (28489), wef 18 Jun 2011
 A Kumar (28483), wef 18 Jun 2011
 P Bhati (28506), wef 18 Jun 2011
 M Yadav (28442), wef 18 Jun 2011
 N Purohit (28441), wef 18 Jun 2011

S Kumar (28449), wef 18 Jun 2011
 P Singh (28448), wef 18 Jun 2011
 DPS Bali (28446), wef 18 Jun 2011
 S Gupta (28445), wef 18 Jun 2011
 S Yadav (28463), wef 18 Jun 2011
 M Arora (28462), wef 18 Jun 2011
 G Choleyill (28461), wef 18 Jun 2011
 M Praveen Kumar (28465), wef 18 Jun 2011
 A Kadian (28464), wef 18 Jun 2011
 N Yadav (28493), wef 18 Jun 2011

F (N) BRANCH

VK Nehra (28467), wef 18 Jun 2011

AE (M) BRANCH

M Goswami (29138), wef 29 Jun 2011
 P Kalaivanan (29136), wef 29 Jun 2011
 A Saxena (29139), wef 29 Jun 2011

AE (L) BRANCH

Nishant Pandit (29154), wef 29 Jun 2011
 SK Singh (29146), wef 29 Jun 2011
 P Misra (29141), wef 29 Jun 2011
 Prabhat Dhariwal (29147), wef 29 Jun 2011
 K Sreejith (29143), wef 29 Jun 2011
 M Raja (29142), wef 29 Jun 2011
 AK Tiwari (29145), wef 29 Jun 2011
 A Chanda (29140), wef 29 Jun 2011
 NK Srivastava (29150), wef 29 Jun 2011
 Ravindra Bhatt (29152), wef 29 Jun 2011
 B Ashok Kumar (29149), wef 29 Jun 2011
 R Kashmira (29148), wef 29 Jun 2011
 Priyanka Choubey (28637), P Priya (28634), M Sharma (28635), NV Pamkar (28636), wef 04 Jul 2011

F (N) BRANCH

N Sharma (28488), wef 18 Jun 2011
 A Sinha (28508), wef 18 Jun 2011
 A Kumar (28447), wef 18 Jun 2011
 DP Singh (28509), wef 18 Jun 2011
 V Kumar (28444), wef 18 Jun 2011
 A L Bhargava (28491), wef 18 Jun 2011
 SS Rath (28460), wef 11 Nov 2011

Fg Offr to be Subs Flt Lt

ADM BRANCH

Kanupriya Karki (30530), wef 27 Jun 2011
Neha Bist (30532), wef 27 Jun 2011
Neha Sahu (30533), wef 27 Jun 2011
Priyanka Thakur (30525), wef 27 Jun 2011
T Bhatt (30524), wef 27 Jun 2011
A Nautiyal (30531), wef 27 Jun 2011
Richa Pandey (30529), wef 27 Jun 2011
Shayana Kadyan (30528), wef 27 Jun 2011
KH Priya Chanu (30527), wef 27 Jun 2011
Rashmi Khatri (30526), wef 27 Jun 2011
Monika Rangi (30523), wef 27 Jun 2011

LGS BRANCH

M Balekundri (30541), wef 27 Jun 2011
S Sowmyanarayani (30535), wef 27 Jun 2011
Shubhi Sharma (30536), wef 27 Jun 2011
Sunayna Madaan (30540), wef 27 Jun 2011
Rekha Yadav (30534), wef 27 Jun 2011
Aditi Gupta (30537), wef 27 Jun 2011
Nupur Singh (30539), wef 27 Jun 2011

ACCTS BRANCH

N K Rai (30542), wef 27 Jun 2011
Sapna Pandey (30543), wef 27 Jun 2011
Arpita Mukherjee (30546), wef 27 Jun 2011
Pappy Shukla (30545), wef 27 Jun 2011
Pallavi (30544), wef 27 Jun 2011

EDN BRANCH

B Bhavani (30547), wef 27 Jun 2011

MET BRANCH

Pooja Bajpai (30135), wef 27 Jun 2011
Shalini Singh (30137), wef 27 Jun 2011
Priya Thakur (30138), wef 27 Jun 2011
Sonali Sharma (30139), wef 27 Jun 2011
Ritu Kundu (30136), wef 27 Jun 2011

LGS BRANCH

Priyanka Hooda (30538), wef 21 Aug 2011
(with Notional Seniority wef 27 Jun 2011)

AE (M) BRANCH

A K Pandey (27300), wef 17 Jan 2005

AE (L) BRANCH

SK Sheoran (27426), wef 17 Jan 2005

ADM BRANCH

Anurag Tripathi (26636), wef 16 Dec 2004

Devi Lal (27308), wef 17 Jan 2005

MET BRANCH

P A Vijayan (25542), wef 16 Jan 2004

Flt Lt to be Subs SQN LDR

F(P) BRANCH

PG Reddy (24168), wef 16 Dec 2004

Shironi Kulkarni (25402), wef 19 Dec 2004

F(N) BRANCH

Avinash Kandlikar (24546), wef 16 Dec 2004

Adesh Chhetri (24550), wef 16 Dec 2004

Virendra Ahluwalia (24966), wef 16 Dec 2004

J F Lashkari (25150), wef 16 Dec 2004

K D Deepak (25351), wef 19 Dec 2004

Tushar Pant (25352), wef 19 Dec 2004

Amrik Singh (25355), wef 19 Dec 2004

V S Kumar (25358), wef 19 Dec 2004

AE(M) BRANCH

J P Sharma (25281), wef 19 Dec 2004

P Singh (25429), wef 16 Dec 2004

A Pandit (25439), wef 16 Dec 2004

Sanjay Hosahalli Ramamury (25457), wef 16 Dec 2004

Kashyap AD (25464), wef 16 Dec 2004

Navendu Vats (25725), wef 16 Dec 2004

Prashant Behera (25727), wef 16 Dec 2004

S D Harishchandra (25732), wef 16 Dec 2004

B Anandhan (25741), wef 16 Dec 2004

D G Patil (25747), wef 16 Dec 2004

Pankaj Kumar (25750), wef 16 Dec 2004

Rajesh Vashisht (25755), wef 16 Dec 2004

Arshdeep Singh (25756), wef 16 Dec 2004

MK Sharma (25758), wef 16 Dec 2004

K P Jaya Kumar (25790), wef 26 Jul 2005

A S Patwari (25792), wef 26 Jul 2005

Abraham Alex (25934), wef 01 Jan 2005

M S Inbasekaran (25936), wef 01 Jan 2005

A Vasudev (25940), wef 01 Jan 2005

P Sharma (25943), wef 03 Jan 2005

S Mehta (25952), wef 01 Jan 2005

Anish Kumar J (25954), wef 17 Jan 2005

Davuluri L Kiran (25955), wef 03 Jan 2005
 Sudhir Pandita (25956), wef 01 Jan 2005
 Maibm Romeo Singh (25957), wef 01 Jan 2005
 Biswajit Sarmah (25959), wef 03 Jan 2005
 D D Bhende (25960), wef 01 Jan 2005
 V D Atri (25962), wef 03 Jan 2005
 P P Prasanth (25963), wef 01 Jan 2005
 Umesh Pujari (25964), wef 01 Jan 2005
 Unni Krishnan (25965), wef 03 Jan 2005
 V Datta (25966), wef 03 Jan 2005
 Rajdeep Singh (26271), wef 14 Jan 2005
 A Mahesh (26641), wef 01 Jul 2006
 Rakesh K Singh (26642), wef 01 Jul 2006
 B P Singh (26644), wef 01 Jul 2006
 R Agarwal (26645), wef 01 Jul 2006
 KRP Chandran (26646), wef 01 Jul 2006

AE(L) BRANCH

PK Garg (24468), wef 16 Dec 2004
 MK Sharma (24469), wef 16 Dec 2004
 S Malakar (25283), wef 19 Dec 2004
 Neeraj Srivastava (25247), wef 03 Jan 2005
 V Madaan (25259), wef 16 Dec 2004
 Prashant Srivastava (25481), wef 16 Dec 2004
 Adivi Prashant (25489), wef 16 Dec 2004
 Surender Singh Rao (25497), wef 16 Dec 2004
 SK Sharma (25817), wef 16 Dec 2004
 Shaji C Thomas (25767), wef 16 Dec 2004
 N Krishna Kishore (25777), wef 16 Dec 2004
 Arvind Rawat (25779), wef 16 Dec 2004
 B Firoz (25780), wef 16 Dec 2004
 A Rajesh (25786), wef 16 Dec 2004
 V Pundir (25797), wef 26 Jul 2005
 VK Purohit (25799), wef 26 Jul 2005
 VK Mishra (25970), wef 03 Jan 2005
 Satpal Singh (25972), wef 01 Jan 2005
 Rajeev Chandel (25974), wef 01 Jan 2005
 Sandeep Mishra (25975), wef 01 Jan 2005
 MK Labroo (25977), wef 03 Jan 2005

Vibhu Sharma (25978), wef 01 Jan 2005
 AK Yadav (25980), wef 01 Jan 2005
 Rakesh Kumar (25981), wef 01 Jan 2005
 Nitin Kanade (25982), wef 01 Jan 2005
 Shalesh Kumar (25983), wef 01 Jan 2005
 Anit Sharma (25985), wef 01 Jan 2005
 Anuj Tiwari (25986), wef 01 Jan 2005
 Ajalie Zuyie (25987), wef 01 Jan 2005
 MS Priyani (25988), wef 01 Jan 2005
 Pankaj Saxena (25991), wef 03 Jan 2005
 G Elangovel (25993), wef 03 Jan 2005
 Alok Kumar (25996), wef 01 Jan 2005
 Rakesh Dalal (25997), wef 01 Jan 2005
 AK Singh (25998), wef 01 Jan 2005
 Ashish Sharma (25999), wef 03 Jan 2005
 Gurpreet Singh (26001), wef 16 Dec 2004
 Karthikeyan (26003), wef 01 Jan 2005
 MA Dubey (26004), wef 01 Jan 2005
 Mandeep Singh Grewal (26006), wef 16 Dec 2004
 Jastaj Singh (26007), wef 03 Jan 2005
 Pulluri Praveen Babu (26009), wef 01 Jan 2005
 DR Yadav (26276), wef 01 Jan 2005
 R Kumar (26510), wef 07 Jan 2006
 Tejinder Singh (26647), wef 01 Jul 2006
 HV Arora (26648), wef 01 Jul 2006
 Gaurav Sharma (26649), wef 01 Jul 2006
 Syed M Jalali (26650), wef 01 Jul 2006
 Dheeraj Yadav (26651), wef 01 Jul 2006
 Jatin R Chourey (26652), wef 01 Jul 2006
 NK Samal (27109), wef 01 Jul 2006

ADM BRANCH

S Kothe (25032), wef 16 Dec 2004
 Rekha Shivkumar (25220), wef 16 Dec 2004
 Vedavrata Barah (25353), wef 19 Dec 2004
 Nidhi Juyal (25408), wef 19 Dec 2004
 Mamta Singh Yadava (25410), wef 19 Dec 2004
 SS Mahesh (25720), wef 25 Jun 2005
 C Majumdar (23595), wef 16 Dec 2004
 Akash Dikshit (24260), wef 16 Dec 2004

GS Arora (24564), wef 16 Dec 2004
M Mathur (24573), wef 16 Dec 2004
Arokia Raj (24578), wef 16 Dec 2004
Navin Bhatia (24582), wef 16 Dec 2004
BK Bishnoi (25157), wef 16 Dec 2004
Arun Kumar Das (25362), wef 19 Dec 2004
Jai Prakash (25363), wef 19 Dec 2004
Anand Manav (25364), wef 19 Dec 2004
Pramod Kumar Tripathi (25369), wef 19 Dec 2004
Vijay Sindhu (25370), wef 19 Dec 2004
Tejveer Singh (25372), wef 19 Dec 2004
Navin Kishor Naithani (25373), wef 19 Dec 2004
KS Reddy (25374), wef 19 Dec 2004
Ashok Kumar Mishra (25376), wef 19 Dec 2004
Sourabh Sood (25405), wef 19 Dec 2004
Meenakshi Nigam (25406), wef 19 Dec 2004
Rajnish Jha (25698), wef 16 Dec 2004
P M Varkey (25531), wef 16 Jan 2005
RK Singh (25533), wef 16 Jan 2005
Ravindra Nath Dubey (25536), wef 16 Jan 2005

ACCTS BRANCH

Pilaka Venkata Rao (24299), wef 16 Dec 2004
T Asha Jyothirmmai (25038), wef 16 Dec 2004
C B Narayanan (25395), wef 19 Dec 2004
Kavita Kathuria Chug (25418), wef 19 Dec 2004

LGS BRANCH

S D Nigam (24276), wef 16 Dec 2004
K B Sudarshan (25383), wef 19 Dec 2004
D K Tiwary (25386), wef 19 Dec 2004
D Sharma (25387), wef 19 Dec 2004
Shalini Anand (25411), wef 19 Dec 2004
Preeti Aswal (25415), wef 19 Dec 2004
Richard David Moses (25420), wef 19 Dec 2004

EDN BRANCH

Sharad R Keskar (24586), wef 16 Dec 2004
D V Singh (24583), wef 21 Jun 2006

P M Beniwal (25539), wef 16 Jan 2005
A K Singh Bishnoi (25540), wef 16 Jan 2005

MET BRANCH

P A Vijayan (25542), wef 16 Jan 2005
SQN LDR to be Subs WG CDR

AE(L) BRANCH

G Vinod (21449), wef 16 Dec 2004

ADM BRANCH

P Dsouza (20594), wef 16 Dec 2004
WG CDR to be Subs GP CAPT (TS)

LGS BRANCH

DK Nagar (14520), wef 16 Dec 2004

Fg Offr to be Subs Flt Lt

AE (M) BRANCH

Prajul Katoch (30267), Harikrishnan Unnikrishnan (30268), Saurabh Deshawal (30269), RRJ Pradeep (30263), Manoj Kashyap (30264), Mudit Gadhok (30266), Chitresh Sisodia (30261), Mishoo Rawat (30262), Shubhankar Saha (30259), Thalaj Kapoor (30260), Rajesh Bharungar (30265)—wef 08 Jan 2010

AE (L) BRANCH

DS Tanwar (30302), S Gopakumar (30300), Dikshant Bohra (30309), PK Vats (30308), Sndeeep Waila (30307), Vikas Jakhar (30306), KS Sanghera (30305), Vinnay Kansal (30294), RS Sandhu (30293), Gajendra Pathak (30301), VS Rana (30298), Vidhu Rathore (30297), Pawail Jain (30299), Puneet Singhal (30296), Mandeep Siddhu (30295), P Mandal (30688), S Singh (30687), Deepak Yadav (30275), AS Bhattacharjya (30274), Sahil Deep (30314), Vinod Chandra (30273), PA Nikhil (30272), Vikash Kumar (30271), S Roy (30313), S Mukherjee (30312), SKS Baghel (30311), Sanket Verma (30270), R Nikhil (30310), Rohit Rajan (30283), SK Nath (30316), Naveen N (30315), Rakesh Kumar (30281), Himanshu Dwivedi (30282), YK Betolia (30280), Dheeraj Kumar (30279), DS Rawat (30278), Ayush Gupta (30277), Joydeep Chandra (30276), Khalid Parvez (30303), Vikas Kaushik (30304), MK Firoz (30290), Pramod Bishnoi (30291), Rohit Gupta (30292), Ashutosh Singh (30287), TS Ratheesh (30289), Saket Arya (30288), Sanjeev Babu (30284), A Raghavendra (30285), KR Pandian (30353), K Sai Praveen (30286), wef 08 Jan 2010

AE (M) BRANCH

N Singh (30550), wef 02 Jul 2010
DK Dubey (30548), wef 02 Jul 2010
R Mann (30556), wef 02 Jul 2010
RJ Pradeep (30551), wef 02 Jul 2010
M Kumar (30557), wef 02 Jul 2010
S Tomar (30552), wef 02 Jul 2010

R Bali (30554), wef 02 Jul 2010

AE (L) BRANCH

P Gangwal (30684), wef 02 Jul 2010

R Gopalakrishnan (30617), wef 02 Jul 2010

S Hui (30616), wef 02 Jul 2010

R Chakraborty (30615), wef 02 Jul 2010

Sibin DP (30614), wef 02 Jul 2010

Gautam Srivastav (30613), wef 02 Jul 2010

A Kumar (30612), wef 02 Jul 2010

J Kumar (30611), wef 02 Jul 2010

Jitendra (30610), wef 02 Jul 2010

PK Rathee (30609), wef 02 Jul 2010

PS Malik (30608), wef 02 Jul 2010

V Pareek (30604), wef 02 Jul 2010

V Chouhan (30603), wef 02 Jul 2010

J Singh (30602), wef 02 Jul 2010

M Sharma (30601), wef 02 Jul 2010

A Tyagi (30600), wef 02 Jul 2010

P Seth (30590), wef 02 Jul 2010

BS Jaswal (30587), wef 02 Jul 2010

RK Ahlawat (30586), wef 02 Jul 2010

J Jamwal (30585), wef 02 Jul 2010

Ankit Sharma (30584), wef 02 Jul 2010

VK Sharma (30583), wef 02 Jul 2010

Gaurav (30582), wef 02 Jul 2010

P Sharma (30581), wef 02 Jul 2010

A Jain (30580), wef 02 Jul 2010

AL Padmanabhan (30578), wef 02 Jul 2010

S Kumar (30565), wef 02 Jul 2010

R Khandelwal (30560), wef 02 Jul 2010

MM Guttal (30559), wef 02 Jul 2010

VK Dixit (30558), wef 02 Jul 2010

CV Achar (30563), wef 02 Jul 2010

K Wadhawan (30562), wef 02 Jul 2010

SK Dutta (30561), wef 02 Jul 2010

V Kumar (30564), wef 02 Jul 2010

R Kumar (30591), wef 02 Jul 2010

AK Kumar (30689), wef 02 Jul 2010

A Saxena (30634), wef 02 Jul 2010

A Kumar (30566), wef 02 Jul 2010

A Muley (30571), wef 02 Jul 2010

Ashish Chandan (30607), wef 02 Jul 2010

S Mittal (30606), wef 02 Jul 2010

SK Singh (30589), wef 02 Jul 2010

B Bajaj (30588), wef 02 Jul 2010

A Pujari (30605), wef 02 Jul 2010

M Singh (30569), wef 02 Jul 2010

D Siva Krishna (30568), wef 02 Jul 2010

B Arunachalam (30567), wef 02 Jul 2010

Ravikant (30577), wef 02 Jul 2010

DB Verma (30576), wef 02 Jul 2010

T Ghose (30592), wef 02 Jul 2010

YK Yadav (30575), wef 02 Jul 2010

Vishal Sharma (30574), wef 02 Jul 2010

R Sharma (30573), wef 02 Jul 2010

HK Ravi (30599), wef 02 Jul 2010

S Yadav (30598), wef 02 Jul 2010

R Chakraborty (30596), wef 02 Jul 2010

JS Malhi (30595), wef 02 Jul 2010

P Garg (30594), wef 02 Jul 2010

Sharad Samarth (30593), wef 02 Jul 2010

AE (M) BRANCH

AR Raman (30549), wef 02 Jul 2010

SP Thomas (30553), wef 02 Jul 2010

M Krupakar (30579), wef 02 Jul 2010

Sonika Kumari (30640), wef 13 Jul 2011

A Chopra (30618), wef 13 Jul 2011

G Singh (30619), wef 13 Jul 2011

AP Desai (30620), wef 13 Jul 2011

KK Hirwani (30621), wef 13 Jul 2011

A Yadav (30622), wef 13 Jul 2011

S Hatwal (30639), wef 13 Jul 2011

AE (L) BRANCH

V Gayathry (30677), wef 13 Jul 2011

K Dixit (30676), wef 13 Jul 2011
Mamatha D (30675), wef 13 Jul 2011
Jemini (30674), wef 13 Jul 2011
A Nigam (30673), wef 13 Jul 2011
M Gautam (30672), wef 13 Jul 2011
Tripti Verma (30670), wef 13 Jul 2011
T Kaur (30669), wef 13 Jul 2011
Shivangi (30668), wef 13 Jul 2011
M Shrivastava (30667), wef 13 Jul 2011
A Sisodia (30666), wef 13 Jul 2011
Neha Gautam (30665), wef 13 Jul 2011
D Raj (30664), wef 13 Jul 2011
S Goel (30663), wef 13 Jul 2011
S Mohite (30662), wef 13 Jul 2011
S Gupta (30661), wef 13 Jul 2011
A Singh (30654), wef 13 Jul 2011
Sonika (30653), wef 13 Jul 2011
U Sohlot (30652), wef 13 Jul 2011
M Gupta (30651), wef 13 Jul 2011
M Kumari (30650), wef 13 Jul 2011
P Karwasra (30649), wef 13 Jul 2011
J Chauhan (30647), wef 13 Jul 2011
Rajashree Abhiraman (30646), wef 13 Jul 2011
K Thakral (30629), wef 13 Jul 2011
A Sharma (30628), wef 13 Jul 2011
A Gupta (30627), wef 13 Jul 2011
P Jeswanth Kumar (30626), wef 13 Jul 2011
G Choudhry (30625), wef 13 Jul 2011
H Hemrajani (30624), wef 13 Jul 2011
AK Singh (30623), wef 13 Jul 2011
N Bhoraniya (30636), wef 13 Jul 2011
A Sinha (30635), wef 13 Jul 2011
R Veeravalli (30633), wef 13 Jul 2011
APK Sehgal (30644), wef 13 Jul 2011
T Arya (30643), wef 13 Jul 2011
N Khan (30642), wef 13 Jul 2011
MK Bahal (30631), wef 13 Jul 2011

RK Krishnasamy (30630), wef 13 Jul 2011
B Pandey (30645), wef 13 Jul 2011
R Chauhan (30638), wef 13 Jul 2011
J Khurana (30637), wef 13 Jul 2011
S Chopra (30678), wef 13 Jul 2011
Rainy Sharma (30679), wef 13 Jul 2011
P Raina (30655), wef 13 Jul 2011
P Joshi (30656), wef 13 Jul 2011
G Sharada (30657), wef 13 Jul 2011
M Tyagi (30658), wef 13 Jul 2011
D Kala (30660), wef 13 Jul 2011
RKM Joseph (30659), wef 13 Jul 2011
S Nair (30685), wef 14 Jul 2011
SK Gupta (30686), wef 17 Jul 2011

F (P) BRANCH

Rohit Tiwari (30507), wef 27 Jun 2011
Abhishek Vashisht (30510), wef 27 Jun 2011
S Kumar (30505), wef 27 Jun 2011
Meet Kumar (30501), wef 27 Jun 2011
P Singh (30495), wef 27 Jun 2011
AK Goakar (30498), wef 27 Jun 2011
Rishipal Rana (30497), wef 27 Jun 2011
Prashant Kondal (30499), wef 27 Jun 2011
R Verekar (30491), wef 27 Jun 2011
C Shekhawat (30500), wef 27 Jun 2011
Archit Agnihotri (30496), wef 27 Jun 2011
AV Singh (30490), wef 27 Jun 2011
DS Rethore (30494), wef 27 Jun 2011
Ajay Chandra (30493), wef 27 Jun 2011
AS Chandel (30514), wef 27 Jun 2011
Anirudh Pathania (30511), wef 27 Jun 2011
MK Singh (30513), wef 27 Jun 2011
Yogesh Mehta (30489), wef 27 Jun 2011
Himanshu (30504), wef 27 Jun 2011
Protim Das (30503), wef 27 Jun 2011
Amit Singh (30516), wef 27 Jun 2011
Asif Iqbal Chauhan (30502), wef 27 Jun 2011

V Kumar (30506), wef 27 Jun 2011	M Mishra (30454), wef 27 Jun 2011
MPS Godara (30464), wef 27 Jun 2011	S Budhia (30422), wef 27 Jun 2011
SK Sirohi (30441), wef 27 Jun 2011	PV Borkar (30458), wef 27 Jun 2011
US Tavhare (30440), wef 27 Jun 2011	S Badiyaree (30430), wef 27 Jun 2011
Prateek Gupta (30439), wef 27 Jun 2011	RK Sahoo (30429), wef 27 Jun 2011
KS Rathore (30438), wef 27 Jun 2011	V Manu (30428), wef 27 Jun 2011
J Simon (30434), wef 27 Jun 2011	Rajaji Singh (30407), wef 27 Jun 2011
TK Rai (30433), wef 27 Jun 2011	Gyanendra Pandey (30406), wef 27 Jun 2011
C Prakash (30436), wef 27 Jun 2011	Vibhu Maheswari (30405), wef 27 Jun 2011
Sachin Ghadge (30462), wef 27 Jun 2011	Suryakant Thalyar (30404), wef 27 Jun 2011
A Jain (30461), wef 27 Jun 2011	Gaurav Paliwal (30403), wef 27 Jun 2011
Vikas Chauhan (30452), wef 27 Jun 2011	SK Singh (30402), wef 27 Jun 2011
SV Basetti (30451), wef 27 Jun 2011	Faiz Rafiuddin Shaikh (30400), wef 27 Jun 2011
Pankaj Pandey (30450), wef 27 Jun 2011	Harshit Tyagi (30401), wef 27 Jun 2011
Kuldeep Singh (30449), wef 27 Jun 2011	C Kajla (30419), wef 27 Jun 2011
Shanky Jain (30448), wef 27 Jun 2011	Ratandeep Jagadale (30432), wef 27 Jun 2011
Ashish Kumar Nim (30447), wef 27 Jun 2011	Bijoyendra Gangopadhyay (30431), wef 27 Jun 2011
Avdesh Tripathi (30446), wef 27 Jun 2011	Hanumantrao Sarathi (30399), wef 27 Jun 2011
TVR Singh (30445), wef 27 Jun 2011	Neeraj Sharma (30383), wef 27 Jun 2011
Chandan Patnaik (30444), wef 27 Jun 2011	V Logesh (30389), wef 27 Jun 2011
Tuhin Mukherjee (30413), wef 27 Jun 2011	P Sharma (30388), wef 27 Jun 2011
Amol Dixit (30412), wef 27 Jun 2011	AV Naveen Kumar (30387), wef 27 Jun 2011
Janmeet Sharma (30411), wef 27 Jun 2011	Krishna Kumar Sharma (30386), wef 27 Jun 2011
Mukul Mahajan (30410), wef 27 Jun 2011	Baskaran Hariharan (30385), wef 27 Jun 2011
Vivek Kumar (30409), wef 27 Jun 2011	M Dhar (30397), wef 27 Jun 2011
Deepak Sansanwal (30408), wef 27 Jun 2011	Aalok Chaudhary (30396), wef 27 Jun 2011
Niraj Yadav (30443), wef 27 Jun 2011	Joy Chandra (30398), wef 27 Jun 2011
S Tyagi (30421), wef 27 Jun 2011	O Prakash (30384), wef 27 Jun 2011
A Negi (30426), wef 27 Jun 2011	Sidharth Negi (30395), wef 27 Jun 2011
Deepu Mahesh (30457), wef 27 Jun 2011	K Praveen (30394), wef 27 Jun 2011
Rishi Kukreti (30456), wef 27 Jun 2011	Arpit Dhaka (30393), wef 27 Jun 2011
Natraj Dagur (30455), wef 27 Jun 2011	Nikhil Pandey (30392), wef 27 Jun 2011
Prem Pratik (30425), wef 27 Jun 2011	Bharat Singh (30390), wef 27 Jun 2011
KD Dixit (30424), wef 27 Jun 2011	SG Krishnan (30463), wef 27 Jun 2011
P Miskeen (30423), wef 27 Jun 2011	Himanshu Gupta (30382), wef 27 Jun 2011
Naveen P Menon (30460), wef 27 Jun 2011	RK Lalit (30417), wef 27 Jun 2011
Ajay Kumar (30459), wef 27 Jun 2011	Prashant Dwivedi (30416), wef 27 Jun 2011

Rahul Tiwari (30415), wef 27 Jun 2011

Ashutosh Sekhri (30414), wef 27 Jun 2011

NK Dhiman (30418), wef 27 Jun 2011

P Bhardwaj (30435), wef 27 Jun 2011

M Singh (30437), wef 27 Jun 2011

P Sinha (30442), wef 27 Jun 2011

F (N) BRANCH

Anchu K (30453), wef 27 Jun 2011

VK Rath (30515), wef 27 Jun 2011

Anshul Agarwal (30509), wef 27 Jun 2011

Rahul Singh (30420), wef 27 Jun 2011

AMS Sambyal (30508), wef 27 Jun 2011

S Kumar (30427), wef 27 Jun 2011

ADM BRANCH

Saurabh Punia (30519), wef 27 Jun 2011

A Saxena (30520), wef 27 Jun 2011

Manoj Rawat (30517), wef 27 Jun 2011

F (P) BRANCH

PP Ranade (30521), wef 27 Jun 2011

Divya Jyoti (30522), wef 27 Jun 2011

LGS BRANCH

BS Venkat Rao (30486), wef 27 Jun 2011

EDN BRANCH

AK Shukla (30487), wef 27 Jun 2011

MET BRANCH

SS Saini (30488), wef 27 Jun 2011

ADM BRANCH

S Bhattacharjee (30471), wef 27 Jun 2011

Vijay Kumar (30466), wef 27 Jun 2011

M K Rai (30467), wef 27 Jun 2011

A Chandel (30468), wef 27 Jun 2011

Anand Singh Shekhawat (30469), wef 27 Jun 2011

AP Mithilesh (30465), wef 27 Jun 2011

Sheetal Sharma (30470), wef 27 Jun 2011

LGS BRANCH

MK Singh (30474), wef 27 Jun 2011

Bivek Sharma (30473), wef 27 Jun 2011

MM Mahant (30472), wef 27 Jun 2011

ACCTS BRANCH

RS Sidhu (30480), wef 27 Jun 2011

Tumulu Sai Prasad (30481), wef 27 Jun 2011

Gaurav Tyagi (30482), wef 27 Jun 2011

SR Singh (30476), wef 27 Jun 2011

SP Jugran (30477), wef 27 Jun 2011

Piyush Agarwal (30475), wef 27 Jun 2011

KL Augustine (30478), wef 27 Jun 2011

RS Singh (30479), wef 27 Jun 2011

EDN BRANCH

T Ramesh Kumar (30485), wef 27 Jun 2011

Vaidyanathan (30484), wef 27 Jun 2011

Roshan Lal (30483), wef 27 Jun 2011

MET BRANCH

Ashok (30134), wef 27 Jun 2011

P Shammy (30133), wef 27 Jun 2011

TARUN KHARE

Wg Cdr

Jt Dir

Per Offrs-3 (D)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 103, dated 20 February 2013—The President is pleased to make the following promotions to the undermentioned individuals for the Post and Date shown against their names :—

Name, Post of Promotion, Estt/Lab, Date of Joining & Pay band and Grade Pay

Girija Kumari, PSA, GTRE, Bangalore, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

MR Sudhakumari, AO, GTRE Bangalore 24 Sep 2012, PB-2, GP-4,600/-

AP Taru, AO, ARDE, Pune, 23 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Vaidyanathan Santha, PSA, ARDE, Pune, 30 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

S S Ramgir, PSA, ARDE, Pune, 30 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

OV Ramachandran, PSA, ARDE, Pune, 30 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

R Meganathan, AO, CAIR, Bangalore 25 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

ML Ravishankar, AO, CAIR, Bangalore 11 Apr 2012, PB-2, GP-4,600/-

Sukanya S, PSA, DFRL, Mysore, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Bhim Charan Majhi, AO, CCE (R&D) East, 26 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Raghavan K, AO, LRDE, Bangalore 23 Nov 2012, PB-2, GP-4,600/-

SD Pawar, AO, HEMRL Pune, 12 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

S Mallesha, AO, ANURAG Hyderabad, 30 May 2012, PB-2, GP-4,600/-

O Satyanarayana, AO, ASL Hyderabad, 27 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Paramjit Kaur, AO, TBRL Chandigarh, 18 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Sukh Dev Verma, AO, SASE, Chandigarh, 20 Jun 2011, PB-2, GP-4,600/-

Vidya Sagar, PS 'A', SASE, Chandigarh, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Ses Ram Chauhan, PS 'A', SASE, Chandigarh, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Ambika Mohan, PSA, DMRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

K Mothilal, PSA, DMRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

KN Lakshmi Kumari, PSA, DMRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

GAM Bharthi, PSA, DMRL, Hyderabad, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Mirajunnisa, AO, DMRL, Hyderabad, 03 Dec 2012, PB-2, GP-4,600/-

D Usha Rani, AO, DLRL, Hyderabad, 29 Nov 2012, PB-2, GP-4,600/-

MVL Narasimha Rao, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

RD Anand Kumar, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

JV Ramana Murthy, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

P Naga Lakshmi, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

VRK Saraswathy, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

K Padmavathi Devi, PSA, DLRL, Hyderabad, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Y Venkateshwarlu, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

D Nagamalleswaramma, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

B Nirmala, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

PD Rajendra Kumar, PSA, DLRL, Hyderabad, 26 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

GS Ratna Kumari, PSA, DLRL, Hyderabad, 29 Oct 2012, PB-2, GP-4,600/-

Charan Pal Singh, Admin Officer, SASE, Chandigarh, 21 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Rattan Chand Mastana, Admin Officer, TBRL, Chandigarh, 19 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

AVS Nair, Admin Officer, CAIR, Bangalore, 07 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

AK Narayanan, Admin Officer, CAIR, Bangalore, 11 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Shivamallu, Admin Officer, CAIR, Bangalore, 11 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

T Chithra, Admin Officer, CCE (R&D) South, 28 May 2012, PB-2, GP-4,600/-

C Leela Kumari, Admin Officer, CCE (R&D) South, 06 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

Meera P Raj, Admin Officer, DARE, Bangalore, 06 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

L Rajanmna, Admin Officer, DARE, Bangalore, 06 Jun 2012, PB-2, GP-4,600/-

RAJEEV RANJAN KHAN
Dy Dir (Pers)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013